

Motivational

Class-7th, Sub. -CCA, Date-09-04-2021

Teacher-Punit Kumar

Dear students, Study the story and follow in your life

Story: मोटिवेशनल स्टोरी: गरीब लड़का और भगवान बुद्ध

Hindi Motivational Story, एक इतना गरीब लड़का था की वह हर रोज खाने के लिए भटकता था और कही ना कही से खाना इक्कठा करता था। पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला की एक चूहा उसका खाना चुराता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा की तुझे पता है मैं इतना गरीब हू फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हे चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यू नहीं चुरता? तो वह चूहा बोला की तेरी किस्मत मैं कुछ ही चीज़े लिखी है वही मिलेगा। भले तू कितनी ही कोशिश करले भले तू कितना भी इक्कठा करले उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शॉक हुआ की ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा की अगर तुझे जानना ही है की तेरी किस्मत मे क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा वही तुम्हे बता सकते है की तुम्हारे किस्मत मैं क्या है।

इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी इसलिए रास्ते मे उसने एक हवेली देखी और उस घरवाले से एक रात रहने के लिए इजाज़त माँगी उसे इजाज़त मिल भी गयी। हवेलीवालोंने लड़के से पूछा की वो इतनी रात को कहा जा रहा है तो उसने कहा की मे बुद्ध के पास जा रहा हू, अपनी किस्मत के बारे मे पूछने के लिए। तो हवेली वालोंने कहा की तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पुछोगे? हमारी एक १६ साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है तो क्या करे जिस से इसकी आवाज़ आए। उस लड़के ने कहा ज़रूर पूछूंगा आप का सवाल और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहा से निकल पड़ा।

“Hindi Motivational Story”

आगे रास्ते मे बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा उसे वहा एक जादूगर मिला उसने उस लड़के से पूछा की वह कहा जा रहा है। तो उसने कहा की भगवान बुद्ध के पास जा रहा हू। अपनी किस्मत के बारे मे पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा की क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पुछोगे मे हज़ारो सालो से तपस्या कर रहा हू ताकि मे स्वर्ग जा सकु और मेरे हिसाब से अब तक तो तुझे स्वर्ग मे चले जाना चाहिए था।

तो मे स्वर्ग मे जाने के लिए क्या करू? लड़के ने कहा की ठीक है मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछता हूँ उस जादूगर के पास एक छड़ी थी उस छड़ी की मदत से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुचा दिया।

जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनोती थी। वहा बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नही पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा तुम कहा जा रहे हो? तो उसने सब बताया तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा। मैं ५०० सालो से Drager बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नही बन पाया तो मैं ऐसा क्या करू जिससे मैं Drager बन जाऊँ लड़के ने कहा मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुचाया।

“Hindi Motivational Story”

आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुच गया। वहा बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति के केवल ३ सवालो के जवाब दुगा। लड़का एकदम शॉक हो गया। क्यूकी उसे तो ४ सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा की उसे कोनसे ३ सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे मे सोचा की कछुआ ५०० सालो से Drager बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर १००० साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है। और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकल सकती है। फिर खुद के बारे मे सोचा की मे तो सिर्फ गरीब हूँ मैं तो माँग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानिया तो मेरी परेशानियो से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके ३ सवाल भगवान बुद्ध से पुछे।

बुद्ध ने जवाब दिया की कछुआ ५०० सालों से ड्रागेर बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नही है। जब तक वह कवच को नही छोड़ेगा तब तक वह Drager नही बन पाएगा। वही जादूगर अबतक अपनी छड़ी नही छोड़ेगा तबतक वह स्वर्ग नही जा पाएगा। और जब लड़की को उसका जीवनसाथी मिल नहीं जाएगा तब वह बोल नहीं पाएगी। “Hindi Motivational Story”

यह सब सुन कर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमे से कीमती मोती निकले वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिये और वह Drager बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग मे चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली मे गया जहा उसने रात गुज़री थी। जब वहा गया तो लड़की सामने आई और बोली उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना? इस तरह लड़के को पैसा, पॉवर और एक खूबसूरत जीवनसाथी मिल गयी।

“Hindi Motivational Story”

जीवन मे कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन मे कुछ बड़ा करने के लिए अपने Comfort zone से बाहर आना होता है। पानी का जहाज़ सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है पर जहाज़ किनारे के लिए नही बना है। वह बीच समुंदर मे लहरो को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन मे कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। और अगर आपको लगता है की आपके

जीवन मे Problem बहुत सारी है तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगो पर जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी Problem उनके Problem से बड़ी है?

Stay Positive... Be Happy...